



निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए आई.टी.आर. 1 से 6 के लिए पी.एफ.ए. और दोषपूर्ण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
1	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	मैंने अनुसूची BP में "अध्याय- XII-G (टन भार)" की आय प्रस्तुत की है। हालांकि कर की गणना करते समय एम.ए.टी. की गणना उसी पर की जा रही है, लेकिन इस मामले में एम.ए.टी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आय की विवरणी में इसे कैसे प्रकट करें?	एम.ए.टी. की गणना करते समय, कोई भी आय जिस पर एम.ए.टी. लागू नहीं होता है, उन्हें क्रम संख्या 6k - अन्य पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तदनुसार, टनभार कर आय को भी क्रमांक 6k पर कम करने की आवश्यकता है। सुसंगत कानूनी फॉर्म फ़ाइलिंग संबंधी नियमों की भी जाँच करें।
2	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	यदि कोई विदेशी कंपनी केवल धारा 44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/44D के तहत आय की पेशकश करने का चयन कर रही है, तो क्या लाभ-हानि खाते की क्रम संख्या 62 भरना अनिवार्य है?	हाँ, यदि कोई विदेशी कंपनी केवल धारा 44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/44D के तहत आय की पेशकश करने का चयन करती है तो उसे लाभ और हानि खाते की क्रम संख्या 62 पर प्राप्ति और लाभ घोषित करना अनिवार्य है। हालाँकि, यदि आय उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई है, तो करदाता द्वारा लेखा-परीक्षा देयता की जाँच की जानी चाहिए तथा उचित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल की जानी चाहिए। करदाता को लेखा-परीक्षा सूचना की क्रम संख्या B में "हाँ" का चयन करना आवश्यक है और साथ ही शर्त "bii या biii" का चयन करना आवश्यक है जिसके आधार पर वह लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।
3	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	यदि कोई कम्पनी प्रकल्पित आय के अलावा कारोबार आय घोषित कर रही है, तो क्या विनिर्माण खाता/व्यापार खाता/लाभ और हानि खाता/बैलेंस शीट भरना अनिवार्य है?	हाँ, यदि कोई कम्पनी प्रकल्पित आय के अलावा कारोबार आय घोषित कर रही है, तो लेखा-बहियों का रख-रखाव अनिवार्य है, इसलिए विनिर्माण खाता/व्यापार खाता/लाभ और हानि खाता, जैसा प्रयोज्य हो और बैलेंस शीट भरना भी अनिवार्य है।
4	आई.टी.आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	क्या विशेष दर पर कर प्रभार्य आय को प्रासंगिक अनुसूचियों में विवरण दिए बिना केवल भाग-B- T1 में दिखाया जा सकता है?	विशेष दर पर कर प्रभार्य आय को भाग B-T1 के साथ सुसंगत आय अनुसूचियों में दर्शाया जाना चाहिए।

5	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	मैं कारोबार और व्यवसाय से हानि का दावा करके नियत तिथि के बाद विवरणी फ़ाइल करने की कोशिश कर रहा था, जो "अनवशोषित मूल्यहास" के कारण है। क्या उक्त हानियों को अगले वर्ष तक अग्रानीत किया जा सकता है?	यदि नियत तिथि के बाद विवरणी फ़ाइल की जाती है, तो अधिनियम के अनुसार कारोबार हानि को अगले वर्ष तक अग्रानीत किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कारोबार और व्यवसाय में हानि अनवशोषित मूल्यहास के कारण हुई है तो उसे अनुसूची CFL से कम किया जाना चाहिए और अगले वर्ष तक अग्रानीत के लिए अनुसूची UD में दर्ज किया जाना चाहिए।
---	--	---	--

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
6	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	यदि पूर्व वर्षों की विवरणी नियत तिथि के बाद फ़ाइल की गई थी, तो उन वर्षों से अग्रानीत हानि को चालू वर्ष की आय से समायोजित किया जा सकता है?	यदि किसी वर्ष के लिए विवरणी नियत तिथि के बाद फ़ाइल की गई थी, तो हानि को अगले वर्ष तक ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए नीचे को छोड़कर इसे चालू वर्ष में भी समायोजित करने की अनुमति नहीं है। 1. गृह संपत्ति हानि 2. शेष मूल्यहास 3. धारा 35(4) के तहत भत्ता
7	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./ दोषपूर्ण	पूर्व के वर्षों में या तो मुझे या मेरे परिचित व्यक्तियों को 37BA का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें टी.डी.एस. के लिए जमा को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव था। इससे बचने के लिए विवरणी फ़ाइल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फ़ॉर्म 26AS में दर्शाई गई सकल प्राप्तियाँ, जिस पर टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा किया गया है, को संबंधित आय अनुसूचियों में लागू आय की विवरणी में प्रकट किया जाना चाहिए। यदि इस वर्ष के दौरान आय पर कर लगाने की पेशकश नहीं की जाती है, तो तदनु रूप टी.डी.एस. के लिए क्रेडिट का दावा केवल उस वर्ष में किया जा सकता है जिसमें आय पर कर लगाने की पेशकश की गई है। इस प्रकार, निर्धारितियों के पास उक्त टी.डी.एस. को पश्चात्कर्ती वर्षों में अग्रानीत करने का विकल्प है।
8	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	अन्य द्वारा काटे गए/एकत्रित किए गए टी.डी.एस./टी.सी.एस. का दावा करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?	अन्य पैर से टी.डी.एस./टी.सी.एस. जमा का दावा करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि अन्य करदाता ने अपनी आयकर विवरणी की टी.डी.एस./टी.सी.एस. अनुसूचियों में अपेक्षित विवरण प्रदान किया है, जिसमें दावेदार का पैर और वह सीमा शामिल है जिसके लिए जमा का दावा किया जा रहा है।
9	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	अनुसूची CG में त्रैमासिक ब्रेकअप कैसे दर्ज करें?	अनुसूची CG में प्रयोज्य कर दर के आधार पर त्रैमासिक ब्रेकअप दर्ज किया जाना है। इसके अलावा इसे अनुसूची BFLA के कॉलम 5 में समायोजन के बाद शेष बची लागू दर पूँजी अभिलाभ आय से मेल खाना चाहिए।

10	ITR 1&4 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	यदि करदाता आई.टी.आर. में विशेष दर पर आय प्रकट करना चाहता है तो क्या आई.टी.आर. 1 या आई.टी.आर. 4 फ़ाइल किया जा सकता है?	यदि करदाता को कोई विशेष दर पर आय प्राप्त हुई है जैसे लॉटरी से आय, संपत्ति के अंतरण से आय, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से आय आदि तो करदाता आई.टी.आर. 1 और आई.टी.आर. 4 फ़ाइल करने के लिए पात्र नहीं है और करदाता को अन्य आई.टी.आर. प्रकार फ़ाइल करना चाहिए।
11	आई.टी.आर. 2,3,5,6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	क्या चालू वर्ष की हानियों को चालू वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित किए बिना अगले वर्ष में अग्रणीत किया जा सकता है?	अनुसूची CYLA में, चालू वर्ष की हानियों के समायोजन के लिए उपलब्ध आय की सीमा तक अगले वर्ष में अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
12	आई.टी.आर. 1,2,3,4 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	क्या फ़ॉर्म 10IA फ़ाइल किए बिना धारा 80DD या 80U के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है?	करदाता को धारा 80DD या 80U के तहत कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10IA को ई-फ़ाइल करना आवश्यक है।
13	आई.टी.आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	क्या मैं धारा के तहत घोषित प्रकल्पित आय के विरुद्ध अग्रणीत कारोबार हानि या अग्रणीत मूल्यहास का समायोजन कर सकता हूँ? 44BB या 44BBB?	नहीं, करदाता धारा 44BB या 44BBB के तहत घोषित प्रकल्पित आय के विरुद्ध अग्रणीत कारोबार हानि या अग्रणीत मूल्यहास की राशि का समायोजन नहीं कर सकता है।
14	आई.टी.आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आई.टी.आर. में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ (वी.डी.ए.) से प्राप्त आय का प्रकटन कैसे करें?	यदि करदाता ने आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों की बिक्री से कोई आय अर्जित की है, तो उसे अनुसूची VDA में बिक्री प्रतिफल, खरीद प्रतिफल, तिथि आदि जैसा ब्यौरा प्रकट करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति में लेन-देन से होने वाली आय के विरुद्ध हानियों की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसूची VDA के कॉलम 6 में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल का मूल्य फ़ॉर्म 26AS में धारा 194S के तहत टी.डी.एस. के विरुद्ध उल्लिखित सकल प्राप्तियों की राशि से कम नहीं है। यदि अपेक्षित अनुसूची/क्रम संख्या पर आई.टी.आर. में दर्शाई गई आय फ़ॉर्म

			26AS में दर्शाई गई आय की तुलना में कम है तो धारा 139(9) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।
15	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम आदि से जीतने पर प्राप्त आय का खुलासा आई.टी.आर. में कैसे करें?	यदि करदाता को लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम आदि से जीत से कोई आय प्राप्त हुई है, तो उसे अनुसूची 0S की क्रम संख्या 2(ai) में ऐसी आय का प्रकटन करना आवश्यक है। इसके अलावा, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसूची 0S की क्रम संख्या 2(ai) में दर्शाई गई आय फॉर्म 26AS में धारा 194B के तहत टी.डी.एस. के विरुद्ध उल्लिखित सकल प्राप्तियों की राशि से कम नहीं है। यदि अपेक्षित अनुसूची/क्रम संख्या पर आई.टी.आर. में दर्शाई गई आय फॉर्म 26AS में दर्शाई गई आय की तुलना में कम है तो धारा 139(9) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।
16	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आई.टी.आर. में दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से हुयी आय का प्रकटन कैसे करें?	यदि करदाता को रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से कोई आय प्राप्त हुई है, तो उसे अनुसूची 0S की क्रम संख्या 8(a) में ऐसी आय का प्रकटन करना आवश्यक है। इसके अलावा, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसूची 0S की क्रम संख्या 8(a) में दर्शाई गई आय फॉर्म 26AS में धारा 194BB के तहत टी.डी.एस. के विरुद्ध उल्लिखित सकल प्राप्तियों की राशि से कम नहीं है। यदि अपेक्षित अनुसूची/क्रम संख्या पर आई.टी.आर. में दर्शाई गई आय फॉर्म 26AS में दर्शाई गई आय की तुलना में कम है तो धारा 139(9) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
17	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	ऑनलाइन गेम से जीत के माध्यम से आय का खुलासा आई.टी.आर. में कैसे करें?	यदि करदाता को ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में कोई आय प्राप्त हुई है, तो उसे अनुसूची 0S की क्रम संख्या 2(aii) में ऐसी आय का प्रकटन करना आवश्यक है। इसके अलावा, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसूची 0S की क्रम संख्या 2(aii) में दर्शाई गई आय फॉर्म 26AS में धारा 194BA के तहत टी.डी.एस. के विरुद्ध उल्लिखित सकल प्राप्तियों की राशि से कम नहीं है। यदि अपेक्षित अनुसूची/क्रम संख्या पर आई.टी.आर. में दर्शाई गई आय

			फॉर्म 26AS में दर्शाई गई आय की तुलना में कम है तो धारा 139(9) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।
18	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	भाग A – अन्य जानकारी में, क्रम संख्या 10(h) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय कोई भी राशि" पर प्रविष्टि की अनुमति क्यों नहीं है?	चूंकि अस्वीकृति के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2024-25 से लागू हैं, इसलिए भुगतान के आधार पर भत्ता निर्धारण वर्ष 2025-26 से ही लागू होगा। इस प्रकार, करदाता भाग A – अन्य सूचना में क्रम संख्या 10(h) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय कोई भी राशि" के क्षेत्र में कोई राशि दर्ज नहीं कर सकता है।



कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
1	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	धारा 36(1) (va) के अनुसार कर्मचारियों से प्राप्त और नियत तिथि पर या उससे पहले कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की गई कितनी राशि को अस्वीकार करना आवश्यक है?	धारा 36(1)(va) के अनुसार करदाताओं को विभिन्न निधियों के लिए कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान को नियत तिथि के भीतर जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा संबंधित अधिनियमों के अनुसार नियत तिथि का ब्यौरा लेखा-परीक्षक द्वारा फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 20(b) में सही ढंग से रिपोर्ट किये जाने की आवश्यकता है। अधिनियम के अनुसार नियत तिथि से आगे किए गए किसी भी भुगतान और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट किए जाने पर धारा 36(1) (va) के तहत अनुमति नहीं दी जानी आवश्यक है।
2	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	धारा 2(22)(e) के तहत प्राप्त लाभांश आय का खुलासा कैसे करें?	वित्तीय वर्ष में धारा 2(22)(e) के तहत प्राप्त लाभांश आय का विवरण फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 36A में प्रकट किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसे समुचित स्थानों पर आई.टी.आर. के अनुसूची 0s में पेश किया जाना चाहिए।
3	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आई.सी.डी.एस. के कारण लाभ पर प्रभाव का प्रकटन कैसे करें और धारा 145A के तहत स्टॉक के मूल्यांकन की विधि क्या है?	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक को "लाभ में वृद्धि", "लाभ में कमी" और "शुद्ध प्रभाव" को अलग-अलग क्रम संख्या 13(e) और 14(b) में दिए गए कॉलम में रिपोर्ट करना आवश्यक है। अनुसूची 1CDs पर आय की विवरणी में, आई.सी.डी.एस. समायोजन के कारण लाभ पर "शुद्ध प्रभाव" प्रत्येक पंक्ति मद के विरुद्ध अलग से दिखाया जाएगा। इसके अलावा, अनुसूची 0I पर, क्रमांक 3a पर 13(e) और 14(b) की सभी घनात्मक मदों का योग दिखाया जाएगा और क्रम संख्या 3b पर 13(e) और 14(b) की सभी ऋणात्मक मदों का योग दिखाया जाएगा। 3(a) माइनस 3(b) का शुद्ध अंतर 13(e) और 14(b) की सभी घनात्मक और ऋणात्मक मदों के अंतर से कम होने की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा देखा गया है कि अनुसूची BP के कुछ समायोजन मद आई.सी.डी.एस. समायोजन में भी दोहराए जाने वाले मद हैं और अलग से पहचाने जाने योग्य हैं। उदाहरण। "मूल्यहास के कारण समायोजन"। दोहरे/बहु प्रभाव वाले ऐसे समायोजनों के प्रभाव को अनुसूची BP के अन्य समुचित कॉलमों का उपयोग करके रिपोर्ट किया जा सकता है, ताकि दोहरे/बहु समायोजन के प्रभाव का अमान्यकरण किया जा सके।

4	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आय कर विवरणी में "लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि और धारा 37 के तहत अस्वीकार्य राशि" का खुलासा कैसे करें?	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक को फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 21(a) और 21(g) में धारा 37 के तहत अस्वीकार्य राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है। करदाता को आई.टी.आर. के भाग A - OI के क्रमांक 7j में धारा 37 के तहत अस्वीकार्य कम से कम समान राशि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जो फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 21(a) और 21(g) में रिपोर्ट की जाती है। यदि आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 7j में आई.टी.आर. में रिपोर्ट की गई राशि फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 21(a) और 21(g) में धारा 37 के तहत अस्वीकार्य राशि से कम है, तो यह अंतर करदाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
5	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आयकर विवरणी में "पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 43B के तहत अस्वीकृत लेकिन पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय राशि" का प्रकटन कैसे करें?	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक को फ़ॉर्म 3CD के खंड 26(A)(a) में पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 43B के तहत अस्वीकृत लेकिन पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है। करदाता को धारा 43B के तहत पूर्ववर्ती वर्ष में अस्वीकृत लेकिन पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय राशि की रिपोर्ट आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 10i में करनी होती है, जिसे फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 26(A)(a) में रिपोर्ट किया जाता है। यदि आई.टी.आर. के भाग A - OI के क्रम संख्या 10i में आई.टी.आर. में रिपोर्ट की गई राशि पूर्व वर्ष में धारा 43B के तहत अस्वीकृत राशि से अधिक है, लेकिन पूर्व वर्ष के दौरान फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 26(A)(a) में स्वीकार्य है, तो यह अंतर करदाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
6	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आयकर विवरणी में "लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि और धारा 43B के तहत अस्वीकृत राशि" का प्रकटन कैसे करें?	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक को फ़ॉर्म 3CD के खंड 26(B)(b) में धारा 43B के तहत अस्वीकृत राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है। करदाता को आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 11i में धारा 43B के तहत अस्वीकृत कम से कम उतनी ही राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है, जो फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 26(B)(b) में रिपोर्ट की गई है। यदि आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 11i में रिपोर्ट की गई राशि फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 26(B)(b) में धारा 43B के तहत अस्वीकृत राशि से कम है, तो यह अंतर करदाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
7	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	आय की विवरणी में "लाभ और हानि लेखा में जमा नहीं की गई राशि" को कैसे प्रकट करें?	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखापरीक्षक को फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 16(a) से 16(d) में लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है। करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम उस राशि का विवरण दे जो कि आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 5(a) से 5(d) तक, लाभ व हानि खाते में जमा नहीं हुई जो कि फ़ॉर्म 3CD के खंड 16(a) से 16(d) पर घोषित है। यदि आई.टी.आर. के भाग A - OI की क्रम संख्या 5(a) से 5(d) में दर्शाई गई राशि, फ़ॉर्म 3CD के खण्ड 16(a) से 16(d) में लाभ एवं हानि खाते

			में जमा नहीं की गई राशि से कम है, तो यह अंतर करदाता की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
--	--	--	--



अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और फ़ॉर्म पर आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
1	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	धारा 80-IA या 80-IB या धारा 80 IC या 80IE या 80IAC या 80IAB के तहत कटौती का दावा कैसे करें और समायोजन से कैसे बचें?	कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10CCB को अनुमत समय के भीतर फ़ाइल करना होगा। विवरणी में दावा की गई कटौती की राशि, संबंधित धारा के फ़ॉर्म में उल्लिखित कटौती और अग्रणीत समायोजन के बाद बी.पी. में उपलब्ध आय की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी अंतर, संबंधित धारा में दावे के प्रतिबंध के माध्यम से समायोजन का कारण बन सकता है।
2	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	धारा 80JJAA के तहत कटौती का दावा कैसे करें और समायोजन से कैसे बचें?	कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10DA को अनुमत समय के भीतर फ़ाइल करना होगा। विवरणी में दावा की गई कटौती की राशि फ़ॉर्म में उल्लिखित कटौती से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी अंतर के परिणामस्वरूप उक्त धारा के दावे पर प्रतिबंध के माध्यम से समायोजन हो सकता है।
3	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	क्या भाग-C कटौती और धारा 10AA के तहत कटौती का दावा करने के लिए नियत तिथि के भीतर विवरणी फ़ाइल करना आवश्यक है?	हाँ, भाग-C कटौती और धारा 10AA के तहत कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के अनुसार नियत तिथि/विस्तारित नियत तिथि के भीतर विवरणी फ़ाइल करना आवश्यक है।
4	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	धारा 80LA या 80LA (1) के तहत कटौती का दावा कैसे करें और समायोजन से कैसे बचें?	कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10CCF को अनुमत समय के भीतर फ़ाइल करना होगा। विवरणी में दावा की गई कटौती की राशि, संबंधित धारा के लिए फ़ॉर्म में उल्लिखित कटौती से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी अंतर के परिणामस्वरूप तदनुरूप अनुभाग में दावे के प्रतिबंध के माध्यम से समायोजन किया जा सकता है।

5	आई. टी. आर. -3, 5 और 6 - पी.एफ.ए./दोषपूर्ण	फ़ॉर्म 29B/29C में उल्लिखित लाभ को आयकर विवरणी की अनुसूची MAT/AMT में कैसे दर्शाया जाना चाहिए?	आयकर विवरणी में उल्लिखित लाभ की राशि एवं अन्य आंकड़े फ़ॉर्म 29B/29C में उल्लिखित लाभ की राशि एवं अन्य आंकड़ों से मेल खाने चाहिए।
6	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./ दोषपूर्ण	फ़ॉर्म 66 में उल्लिखित लाभ को आयकर विवरणी में "अध्याय-XII-G (टन भार)" के लिए अनुसूची BP में किस प्रकार दर्शाया जाना चाहिए?	विवरणी में दी जाने वाली आय की राशि फ़ॉर्म 66 में उल्लिखित लाभ की राशि से मेल खानी चाहिए। इसके अलावा दोषपूर्ण नोटिस से बचने के लिए फ़ॉर्म 66 फ़ाइल करना अनिवार्य है।
7	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./ दोषपूर्ण	क्या फ़ॉर्म 10-IB, 10-IC और 10-ID प्रत्येक वर्ष फ़ाइल करना आवश्यक है?	नहीं, फ़ॉर्म 10-IB, 10-IC और 10-ID, जैसा भी लागू हो, को विकल्प चुनने के पहले वर्ष में ही फ़ाइल करना आवश्यक है। हालाँकि, कृपया सुनिश्चित करें कि यह फ़ॉर्म नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया गया है। यदि आप नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म फ़ाइल करने से चूक जाते हैं, तो अगले वर्ष नियत तिथि के भीतर इसे फिर से फ़ाइल करें। कृपया ध्यान दें कि एक बार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के बाद कोई इससे बाहर नहीं जा सकता है। हालाँकि, कोई भी व्यक्ति 115BA से 115BAA या 115BAB से 115BAA तक जा सकता है।
प्रश्न संख्या	सुसंगत आई.टी.आर. के प्रकार	विवरण	जवाब
8	आई.टी.आर.- 6 - पी.एफ.ए./ दोषपूर्ण	यदि अनुसूची BP में धारा 44DA के तहत आय की पेशकश की जाती है तो क्या फ़ॉर्म 3CE फ़ाइल करना अनिवार्य है?	यदि धारा 44DA के तहत विवरणी में आय की राशि दर्शाई गई है तो अनुमत समय के भीतर फ़ॉर्म 3CE फ़ाइल करना अनिवार्य है। यदि फ़ॉर्म फ़ाइल नहीं किया गया है, तो विवरणी दोषपूर्ण हो सकती है।